



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1935 (श०)  
(सं० पटना 588) पटना, बुधवार, 24 जुलाई 2013

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

23 मार्च 2013

सं० 2200—श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, थाना—मदनपुर, दद्यपि, शिवगंज, औरंगाबाद पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०—2637 है। इस न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद से नई समिति के गठन हेतु नाम भेजने का अनुरोध किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक—131/गो०, दिनांक 31/01/13 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु नौ सदस्यों का नाम प्राप्त हुआ है। अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि अंचलाधिकारी, मदनपुर की उपस्थिति में आम सभा कराकर सदस्यों का चयन किया गया है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, थाना—मदनपुर, दद्यपि, शिवगंज, औरंगाबाद की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, थाना—मदनपुर, दद्यपि, शिवगंज, औरंगाबाद” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, थाना—मदनपुर, दद्यपि, शिवगंज, औरंगाबाद” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय—व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप—विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय—व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 02.04.2013 से 05 वर्ष की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती है:-

(1) श्री रामलखन सिंह पिता- श्री कृतनारायण सिंह, ग्राम- दद्यपि	—	अध्यक्ष
(2) श्री जितेन्द्र कुमार सिंह पिता- श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम- दद्यपि	—	सचिव
(3) श्री रमेश पासवान पिता- श्री जगदीश पासवान, ग्राम- दद्यपि	—	सदस्य
(4) श्री रामनन्दन पाठक पिता- श्री बालेश्वर पाठक, ग्राम- दद्यपि	—	सदस्य
(5) श्री रामलखन मेहता पिता- श्री चलितर मेहता, ग्राम- दद्यपि	—	सदस्य
(6) श्री अरविन्द सिंह पिता- श्री श्याम नारायण सिंह, ग्राम- बहुआरा	—	कोषाध्यक्ष
(7) श्री बैकुण्ठ नारायण सिंह पिता- श्री गया सिंह, ग्राम- धोबडीहा	—	सदस्य
(8) श्री विनोद कुमार सिंह पिता- श्री कुलदीप सिंह, ग्राम- शिवगंज	—	सदस्य
(9) श्री कृष्ण लाल यादव पिता- श्री हरी यादव, ग्राम- ग्वाल बिगहा	—	सदस्य

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 588-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>